



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2001/अग्रहायण 23, 1923

No. 624]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2001/AGRAHAYANA 23, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2001

सं. 125/2001-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 902(अ).— अभिहित प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 28 मार्च, 2001 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) कोरिया जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित पालिएस्टर फिल्म का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिपाटन हुआ है ;

(ख) भारतीय घरेलू उद्योग को तात्त्विक-क्षति पहुंची है ;

(ग) धूप/घूल नियंत्रित पालिएस्टर फिल्म और संघारित्र उपयोजन के लिए पालिएस्टर फिल्मों के आयात के परिणामस्वरूप, जिनमें आयात कीमत प्रति किलोग्राम 6.50 अमरीकन डालर से उच्चतर पाई गई थी, कोई क्षति कारित नहीं हुई है ; और

(घ) विषयगत देशों से आयातों द्वारा संघयी रूप से क्षतिकारित हुई है ;

और, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 मई, 2001 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 48/2001-सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 2001 सा०का०नि० 332(अ), तारीख 10 मई, 2001 द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 28 अगस्त, 2001 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अभिहित प्राधिकारी और मैसर्स टोर सेहन इंक के बीच हुए वचनबंध कीमत को पुनरीक्षित किया है और प्रवर्ग क और ग के लिए वचनबंध रकम को नीचे वर्णित के रूप में पढ़ा जाएगा :—

## सारणी

प्रवर्ग	पालिएस्टर फिल्म का विवरण			अवतरण मूल्य (प्रति किलोग्राम अमरीकन डालर में)
	पालिएस्टर फिल्म की किस्म	मोटाई (माइक्रोन में)	लम्बाई (मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	आईटीसी 3920.6903 के अनुसार पैकेजिंग फिल्म	8.30	6000 - 36000	1.896
ग	आईटीसी 3920.6905 के रूप में पैकेजिंग/धूप/धूल को छोड़कर पालिएस्टर फिल्म	एक्सए : 9 - 16 एक्सबी : 11- 17 एक्सजी : 16 - 32	एक्सए : 5000-15000 एक्सबी : 14000-17000 एक्सजी : 500-6000	1.642

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त पुनरीक्षित कीमत के आधार पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 48/2001-सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी 1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

## “सारणी 1

क्र.सं.	पालिएस्टर फिल्म का विवरण			अवतरण मूल्य (प्रति किलोग्राम अमरीकन डालर में)
	पालिएस्टर फिल्म की किस्म	मोटाई (माइक्रोन में)	लम्बाई (मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पैकेजिंग फिल्म	8.30	6000 - 36000	1.896

2	पॉलिएस्टर फिल्म (पैकेजिंग या धूप/धूल को छोड़कर)	एक्सए : 9 - 16 एक्सवी : 11- 17 एक्सजी : 16 - 32	एक्सए : 5000-15000 एक्सवी : 14000-17000 एक्सजी : 500-6000	1.642"
---	--	---	---	--------

[ फा.सं. 354/152/2000-टीआरयू (पीटी-2) ]

विवेक प्रसाद, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2001

No. 125/2001-CUSTOMS

**G.S.R. 902(E).—** WHEREAS the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28<sup>th</sup> March, 2001 has come to the conclusion that -

- Polyester film originating in, or exported from, the People's Republic of Korea and Indonesia has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- the Indian domestic industry has suffered material injury;
- no injury has been caused as a result of import of sun/dust controlled polyester film and polyester films for capacitor applications, wherein the import prices were found to be higher than US \$ 6.50 per kilogramme; and
- the injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2001-Customs, dated the 10<sup>th</sup> May, 2001, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 10<sup>th</sup> May, 2001 *vide* G.S.R. 332(E), dated the 10<sup>th</sup> May, 2001;

AND WHEREAS the designated authority, *vide* its notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28<sup>th</sup> August, 2001, has revised the price undertaking entered into between the Designated Authority of the Ministry of Commerce and Industry and M/s Toray Saehan Inc. on 28<sup>th</sup> March, 2001 and the undertaking amount for category A and C shall be read as mentioned below: -

Table

Category	Description of Polyester film			Landed value (US \$ per kilogramme)
	Type of Polyester Films	Thickness (micron)	Length (meters)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Packaging Film as per ITC 3920.6903	8.30	6000-36000	1.896
C	Polyester Film Excluding Packaging /Sun/Dust as ITC 3920.6905	XA: 9-16 XV: 11-17 XG: 16-32	XA: 5000-15000 XV: 14000-17000 XG: 500-6000	1.642

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with sub-section (5) of the said section 9A and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid revised price, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.48/2001-Customs, dated the 10<sup>th</sup> May, 2001, namely:-

In the said notification, for the Table I, following Table I shall be substituted, namely:-

“ Table I

S. No.	Description of Polyester film			Landed value (US \$ per kilogramme)
	Grade	Thickness (micron)	Length (meters)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Packaging film	8.30	6000-36000	1.896
2	Polyester film (excluding packaging or sun/dust controlled)	XA: 9-16 XV: 11-17 XG: 16-32	XA: 5000-15000 XV: 14000-17000 XG: 500-6000	1.642”

[F. No. 354/152/2000-TRU (Pt-II)]  
VIVEK PRASAD, Under Secy.